

अवैध अपमिश्रित 240 लीटर कच्ची शराब एवं लहन 2800 लीटर (नष्ट करायी गयी) तथा शराब बनाने के उपकरण व अपायकर वस्तु ,नौसादर, यूरिया, फिटकरी ,नमक आदि के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 15.04.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी महोदय घोसी के कुशल निर्देशन में थाना दोहरीघाट की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 15.04.2021 को समय करीब 8.00 बजे ग्राम सूरजपुर मन्दिर के पीछे नदी किनारे स्थित झुरमुट के पास से अंकुश यादव पुत्र रामज्ञान यादव सा0 गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा एक अन्य अभियुक्त मुलायम यादव पुत्र बेचू यादव सा0 इब्राहिमाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। 15-15 लीटर के डिब्बे में 240 लीटर शराब बरामद किया गया। मौके पर जमीन में गडा करीब 2800 लीटर लहन नष्ट किया गया तथा मौके से कच्ची शराब बनाने के उपकरण व अपायकर वस्तु ,नौसादर, यूरिया, फिटकरी ,नमक आदि बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 104/21 धारा 272/273 IPC व 60/60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय खाना किया जा रहा है।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया कि हम लोग आर्थिक रूप से बहुत गरीब है और अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैं तथा मेरा साथी , जो भाग गया है, मिलकर अवैध शराब का उत्पादन व निष्कर्षण एवं विक्री करते है।

विवरण अभियुक्त -

1. अंकुश यादव पुत्र रामज्ञान यादव सा0 गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ. (गिरफ्तार)
2. मुलायम यादव पुत्र बेचू यादव सा0 इब्राहिमाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ (फरार)

गिरफ्तारी व स्थान , दिनांक व समय

बहद ग्राम सूरजपुर मन्दिर के पीछे स्थित नदी के किनारे से फासला करीब 11 कि.मी. पूरब उत्तर, दिनांक घटना 16.04.2021 समय 8.00 बजे सुबह

बरामदगी का विवरण

1. 240 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब
2. 01 किग्रा नौसादर , 04 किग्रा यूरिया 2.5 किग्रा फिटकरी, 4 किग्रा0 नमक का पैकेट व शराब बनाने के उपकरण
3. 14 ड्रम लहन कुल 2800 लीटर

गिरफ्तारी करने वाले टीम का नाम

- 1 SO मनोज कुमांर सिंह
2. व0उ0नि0 अजीत दूबे
- 3.उ0नि0 श्यामजी यादव

4. का0 सुनील यादव
5. का0 दशरथ प्रसाद
6. का0 शिवदत्त द्विवेदी
- 7.का0 अनिल चौधरी
- 8.का0 रजनीश शुक्ला
- 9.का0 सूर्यभान चौहान

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 15.04.2021 को थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान डोमनपुरा के पास से मु0अ0सं0 66/21 धारा 363,376,120बी भादवि0 व 3/4 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त कल्लू पुत्र भूरा निवासी कड़वा तुलसीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 09 व्यक्ति तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 15.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा विजय बहादुर, वृजेश, राहुल, काशीनाथ, वासुदेव, पवन कुमार निवासीगण जोगरी थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा पवन, मिथिलेश निवासीगण सोनिसा थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा मुसाफिर निवासी बरलाई थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा **वारंटी** अभियुक्त अरविन्द पुत्र रामसेवक निवासी पिपरौता थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।